

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### PATHOLOGY ( पैथोलॉजी )

S.No.	Name of tests
1	<b>Hb-Hemoglobin</b> - हीमोग्लोबिन
2	<b>TLC-Total Leukocyte Count</b> - टी एल सी
3	<b>DLC-Differential Leukocyte Count</b> - डी एल सी
4	<b>MP Slide method-Malaria Parasite Slide Method</b> एम पी स्लाइड पद्धति
5	<b>ESR-Erythrocytic Sedimentation Rate</b> - ई एस आर
6	<b>BT-Bleeding Time</b> - ब्लीडिंग टाईम (बी टी)
7	<b>CT-Clotting Time</b> - क्लॉटिंग टाईम (सी टी)
8	<b>PBF-Peripheral Blood Film</b> - पी बी एफ
9	<b>CBC- Complete Blood Count</b> - सी बी सी
10	<b>Blood group (ABO-RH Typing)</b> - ब्लड ग्रुप
11	<b>TEC - Total Eosinophilic Count</b> - टी ई सी

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### BIOCHEMISTRY ( बॉयोकेमेस्ट्री )

S.No.	Name of tests
1	<b>Blood sugar</b> - ब्लड शुगर (F) (PP)
2	<b>Blood Urea</b> - ब्लड यूरिया
3	<b>Serum Creatinine</b> - सीरम क्रियेटिनिन
4	<b>Serum Bilirubin (T)</b> - सीरम बिलिरुबिन (टी)
5	<b>Serum Bilirubin (D)</b> - सीरम बिलिरुबिन (डी)
6	<b>SGOT</b> - एस जी ओ टी
7	<b>SGPT</b> - एस जी पी टी
8	<b>Serum Alk. Phosphatase</b> - सीरम अल्क फॉस्फेट
9	<b>Serum Total Protein</b> - सीरम टोटल प्रोटीन
10	<b>Serum Albumin</b> - सीरम एल्बुमिन
11	<b>Serum Calcium</b> - सीरम कॅल्शियम
12	<b>Serum CK-NAC</b> - सीरम सी के-एन ए सी
13	<b>Serum CK-MB</b> - सीरम सी के-एम बी
14	<b>Serum LDH</b> - सीरम एल डी एच
15	<b>Serum Amylase</b> - सीरम एमाइलेज
16	<b>Serum Uric Acid</b> - सीरम यूरिक एसिड

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### MICRO BIOLOGY ( माईक्रोबॉयोलॉजी )

S.No.	Name of tests
1	<b>S.CRP</b> – सीरप सीआरपी
2	<b>VDRL rapid test</b> - वी डी आर एल रेपिड टेस्ट
3	<b>HIV rapid test</b> - एच आई वी रेपिड टेस्ट
4	<b>Sputum for AFB</b> - स्पूटम एफ बी
5	<b>Widal Slide Test</b> - विडाल स्लाइड टेस्ट
6	<b>Dengue (rapid) test</b> - डेंगू (रेपिड) टेस्ट
7	<b>Malaria by card test</b> - मलेरिया कार्ड टेस्ट
8	<b>Rheumatoid factor (RF)</b> - रॉमेटाइड फैक्टर (आर एफ)
9	<b>ASLO</b> - ए एस एल ओ
10	<b>HBs Ag (rapid) test</b> - एच बी एस ए जी (रेपिड) टेस्ट

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### URINE ANALYSIS ( मूत्र की जाँच )

S.No.	Name of tests
1	<b>Urine Complete</b> - सम्पूर्ण मूत्र-जाँच
2	<b>Urine Pregnancy Test (UPT)</b> - मूत्र प्रेग्नेन्सी जाँच
3	<b>Urine Microscopy</b> - मूत्र माइक्रोस्कोपी

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### STOOL ANALYSIS ( मल की जाँच )

S.No.	Name of tests
1	<b>Stool for OVA &amp; CYST</b> - मल जाँच औवा एवं सिस्ट

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### CARDIOLOGY ( हृदय की जाँच )

S.No.	Name of tests
1	<b>ECG</b> – ई.सी.जी.

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## INVESTIGATION REQUEST FORM

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### RADIOLOGY ( रेडियोलॉजी )

S.No.	Name of tests
1	X-Ray - एक्स रे Body part..... View.....
2	USG - सोनोग्राफी <ul style="list-style-type: none"> <li>• Whole Abdomen</li> <li>• Upper Abdomen</li> <li>• Lower Abdomen</li> <li>• KUB</li> <li>• Pelvis</li> <li>• Small Parts.....</li> <li>• Foetal well being</li> </ul>

Mention S.No. of  
The Advised Test

Signature & Name  
MO/Consultant

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## REPORT FORM OF INVESTIGATION

Patient Name.....Date.....

Age.....Sex.....Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit.....Bed No.....

### PATHOLOGY ( पैथोलॉजी )

S.No	Name of tests	Result	Normal Range
1	Hb-Hemoglobin - हीमोग्लोबिन		12-18gm%
2	TLC-Total Leukocyte Count - टी एल सी		4.6-10.6/mm <sup>3</sup>
3	DLC-Differential Leukocyte Count - डी एल सी P....% L....% E....% M....% B....%		P(42-56%) L(25-40%) E(0-4%) M(1-3%)
4	MP Slide method-Malaria Parasite Slide Method एम पी स्लाइड पद्धति		Negative
5	ESR-Erythrocytic Sedimentation Rate - ई एस आर		5-15mm/1hrs
6	BT-Bleeding Time - ब्लीडिंग टाईम (बी टी)		1.5-4 minutes
7	CT-Clotting Time - क्लॉटिंग टाईम (सी टी)		3-5 minutes
8	PBF-Peripheral Blood Film - पी बी एफ ..... ..... ..... .....		
9	CBC- Complete Blood Count - सी बी सी		
10	Blood group (ABO-RH Typing) - ब्लड ग्रुप ABO.....RH.....		
11	TEC - Total Eosinophilic Count - टी ई सी		50-200/mm <sup>3</sup>

Date.....

Signature & Name  
MO/IC LAB

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## REPORT FORM OF INVESTIGATION

Patient Name ..... Date .....

Age ..... Sex ..... Referred by Dr .....

OPD/Ward Unit ..... Bed No .....

### BIOCHEMISTRY ( बॉयोकेमेस्ट्री )

S.No .	Name of tests	Result	Normal Range
1	<b>Blood sugar - ब्लड शुगर (F)</b> <b>Blood sugar - ब्लड शुगर (PP)</b>		70-110 mg % 120-140mg%
2	<b>Blood Urea - ब्लड यूरिया</b>		15-45 mg %
3	<b>Serum Creatinine - सीरम क्रियेटिनिन</b>		0.6-1.6 mg %
4	<b>Serum Bilirubin (T)-सीरम बिलिरुबिन (टी)</b>		0.2-1.0 mg %
5	<b>Serum Bilirubin (D) - सीरम बिलिरुबिन (डी)</b>		0.1-0.4 mg %
6	<b>SGOT - एस जी ओ टी</b>		5-40 U/L
7	<b>SGPT - एस जी पी टी</b>		5-36 U/L
8	<b>Serum Alk. Phosphatase - सीरम अल्क फॉस्फेट</b>		वयस्क 25-140 बच्चा 105-350 U/L
9	<b>Serum Total Protein - सीरम टोटल प्रोटीन</b>		6-8.5 gm %
10	<b>Serum Albumin - सीरम एल्बुमिन</b>		3.5-5.0 gm %
11	<b>Serum Calcium - सीरम केलिशायम</b>		7-11 mg %
12	<b>Serum CK-NAC - सीरम सी के-एन ए सी</b>		20-200 U/L
13	<b>Serum CK-MB - सीरम सी के-एम बी</b>		0-25 U/L
14	<b>Serum LDH - सीरम एल डी एच</b>		160-420 U/L
15	<b>Serum Amylase - सीरम एमाइलेज</b>		< 90 U/L
16	<b>Serum Uric Acid - सीरम यूरिक एसिड</b>		2-6 mg %

Date.....

Signature & Name  
MO/IC LAB

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## REPORT FORM OF INVESTIGATION

Patient Name ..... Date .....

Age ..... Sex ..... Referred by Dr .....

OPD/Ward Unit ..... Bed No .....

### MICRO BIOLOGY ( माईक्रोबॉयलॉजी )

S.No .	Name of tests	Result	Normal Range
1	<b>S.CRP - सीरम सीआरपी</b>		Non-Reactive
2	<b>VDRL rapid test - वी डी आर एल रेपिड टेस्ट</b>		Non-Reactive
3	<b>HIV rapid test - एच आई वी रेपिड टेस्ट</b>		Non-Reactive
4	<b>Sputum for AFB - स्पूटम फोर ए एफ बी</b>		Negative
5	<b>Widal Slide Test - विडाल स्लाइड टेस्ट</b> TO.....TH.....AH.....BH.....		Negative
6	<b>Dengue (rapid) test - डेंगू (रेपिड) टेस्ट</b> IgG.....IgM.....		Negative
7	<b>Malaria by card test - मलेरिया कार्ड टेस्ट</b>		Negative
8	<b>Rheumatoid factor (RF) - रूमेटाइड फैक्टर (आर एफ)</b>		Non-Reactive
9	<b>ASLO - ए एस एल ओ</b>		Non-Reactive
10	<b>HBs Ag (rapid) test - एच बी एस ए जी (रेपिड) टेस्ट</b>		Negative

Date.....

Signature & Name  
MO/IC LAB

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## REPORT FORM OF INVESTIGATION

Patient Name..... Date.....

Age..... Sex..... Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit..... Bed No.....

### URINE ANALYSIS ( मूत्र की जाँच )

S.No .	Name of tests	
1	<b>Urine Complete - सम्पूर्ण मूत्र-जाँच</b>	
	<b>Physical Examination</b>	<b>Chemical Examination</b>
	Quantity.....	Albumin.....
	Colour.....	Sugar.....
	Specific gravity.....	Acetone.....
	Reaction (pH).....	Bile Salts.....
	Deposit.....	Bile Pigments.....
2	<b>Urine Pregnancy Test (UPT) - मूत्र प्रेग्नेन्सी जाँच .....</b>	
3	<b>Urine Microscopy - मूत्र माइक्रोस्कोपी</b>	
	Microscopic examination (Centrifuged Deposits)/H.P.F.	
	Pus Cells.....	Casts.....
	RBCs.....	Crystals.....
	Epithelial Cells.....	Spermatozoa.....
		Bacteria Flora.....
		Others.....

Date.....

Signature & Name  
MO/IC LAB

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## REPORT FORM OF INVESTIGATION

Patient Name..... Date.....

Age..... Sex..... Referred by Dr.....

OPD/Ward Unit..... Bed No.....

### STOOL ANALYSIS ( मल की जाँच )

S.No .	Name of tests	Result	Normal Range
1	<b>Stool for OVA &amp; CYST - मल जाँच ओवा एवं सिस्ट</b> OVA ..... CYST .....		Negative

Date.....

Signature & Name  
MO/IC LAB

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## SONOGRAPHY FOR WHOLE ABDOMEN

Patient Name ..... Date .....

Age ..... Sex ..... Referred by Dr .....

OPD/Ward Unit ..... Bed No .....

### RADIOLOGY ( रेडियोलॉजी )

<b>Liver :</b>	Is normal in size, shape & echo texture. No focal or diffuse pathology is seen in liver parenchyma. IHBR not dilated.
	Portal vein and CBD are normal in diameter. Spleno portal axis SV.....PV.....
<b>Gallbladder :</b>	Is visualized with echo free lumen & normal wall thickness.
<b>Pancreas :</b>	Is normal in size & echo texture.
<b>Kidneys :</b>	Both kidneys are normal in size, shape & echo texture. Corticomedullary differentiation is normal. Size RK.....LK.....
<b>Spleen :</b>	In normal in size & echo texture.
<b>U.B. :</b>	Bladder wall smooth and normal thickness, lumen is echo free. Pre voiding.....Post voiding.....
<b>Free fluid / Lymphadenopathy</b>	
<b>Uterus :</b>	<b>Prostate :</b>
Size.....	Normal in size & echo texture.
Smooth contour	Size.....
Homogeneous echo texture.	Weight.....
Endometria echoes are central	
<b>Ovaries :</b>	Size RT.....LT.....
<b>P.O.D.</b>	FF in POD / Nil

Comment :

Advise :

Date.....

Signature & Name  
MO/IC Radiology

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

राजकीय चिकित्सालय.....

## SONOGRAPHY FOR FOETAL WELL BEING

Patient Name ..... W/o ..... Date .....

Age ..... Sex ..... Referred by Dr .....

OPD/Ward Unit ..... Bed No .....

### RADIOLOGY ( रेडियोलॉजी )

<b>LMP</b> .....	<b>Edd</b> .....
<b>Uterus :</b> Gravid / Non gravid	
<b>No. of Foetus :</b> Single / Twin	
<b>Presentation :</b> Cephalic/Brech/Transverse/Oblique	
<b>FHS</b> .....	
<b>Foetal Movements</b> .....	
<b>Placenta</b> .....	<b>Grade</b> .....
<b>G.Sac</b> .....	mm.....Wk
<b>CRL</b> .....	mm.....Wk
<b>BPD</b> .....	mm.....Wk
<b>FL</b> .....	mm.....Wk
<b>AC</b> .....	mm.....Wk
<b>HC</b> .....	mm.....Wk
<b>Liquor</b> .....	
No obvious congenital abnormality detected.	
<b>Internal OS</b> .....	<b>Diameter</b> .....
<b>Composite EDD (By USG)</b> .....	
Approx Foetal weight.....gms.	

यहां भ्रूण का लिंग परिक्षण नहीं किया जाता है।

Disclosure of the sex of the foetus is prohibited under the law.

Date.....

Signature & Name  
MO/IC Radiology

Type of investigation	Paper colour	
Pathology	Light Red	Red
Microbiology	Light Yellow	Yellow
Biochemistry	Light Blue	Blue
Urine, Stool, Cardiology & Radiology	White	